

अगर आप किसी एक खास दिन को खुशी या उत्सव मनाना चाहते हैं, जो आपके लिए आध्यात्मिक या सामाजिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, तो कृपया इन बातों का ध्यान रखें।:

Se pretende celebrar uma data espiritualmente relevante para si ou algum outro tipo de festividade, SIGA ESTAS RECOMENDAÇÕES:

- किसी भी तरह की सभा और भीड़-भाड़ करने से बचें और लोगों के साथ संपर्कों को कम से कम रखें।;

Evite ajuntamentos de pessoas e reduza ao máximos os contactos;

- देश के अंदर (और बाहर) यात्राओं से बचें;

Evite viagens dentro (e fora) do país;

- केवल उन्हीं लोगों के साथ उत्सव और जश्न मनाएं जिनके साथ आप अपना घर सांझा करते हैं।;

Celebre apenas com as pessoas com quem partilha casa;

- उपलब्ध डिजिटल मीडिया का लाभ उठाएं, और ऑनलाइन खुशी मनाने के तरीके खोजें।;

Aproveite os meios digitais disponíveis e encontre formas de celebração online;

- जोखिम भरे व्यवहार से बचें और स्वास्थ्य विभाग की सफाईशियों का पालन करें।;

Evite comportamentos de risco e siga todas as recomendações da DGS.*

** Direção-Geral da Saúde*

हम महामारी के दौर में रहते हैं, इसलिए कृपया ज़िम्मेदार बनें अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी।

Vivemos tempos de pandemia, seja responsável por si e pelos outros.

इस वर्ष
व्यक्तिगत उत्सव
का चयन करें।

ESTE ANO ESCOLHA A
CELEBRAÇÃO INDIVIDUAL

Promovido por:



TAIPA



Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano



Unidade
de Saúde
Pública
Alentejo Litoral

Com o apoio de:



MUNICÍPIO



Photo by Deva Darshan on Unsplash

अगर आप किसी एक खास दिन को खुशी या उत्सव मनाना चाहते हैं, जो आपके लिए आध्यात्मिक या सामाजिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, तो कृपया इन बातों का ध्यान रखें।:

Se pretende celebrar uma data espiritualmente relevante para si ou algum outro tipo de festividade, SIGA ESTAS RECOMENDAÇÕES:

- किसी भी तरह की सभा और भीड़-भाड़ करने से बचें और लोगों के साथ संपर्कों को कम से कम रखें।;

Evite ajuntamentos de pessoas e reduza ao máximos os contactos;

- देश के अंदर (और बाहर) यात्राओं से बचें;

Evite viagens dentro (e fora) do país;

- केवल उन्हीं लोगों के साथ उत्सव और जश्न मनाएं जिनके साथ आप अपना घर सांझा करते हैं।;

Celebre apenas com as pessoas com quem partilha casa;

- उपलब्ध डिजिटल मीडिया का लाभ उठाएं, और ऑनलाइन खुशी मनाने के तरीके खोजें।;

Aproveite os meios digitais disponíveis e encontre formas de celebração online;

- जोखिम भरे व्यवहार से बचें और स्वास्थ्य विभाग की सफारिशों का पालन करें।;

Evite comportamentos de risco e siga todas as recomendações da DGS.*

** Direção-Geral da Saúde*

हम महामारी के दौर में रहते हैं, इसलिए कृपया ज़िम्मेदार बनें अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी।

Vivemos tempos de pandemia, seja responsável por si e pelos outros.

इस वर्ष
व्यक्तिगत उत्सव
का चयन करें।

*ESTE ANO ESCOLHA A
CELEBRAÇÃO INDIVIDUAL*

Promovido por:



Unidade
de Saúde
Pública
Alentejo Litoral

Com o apoio de:

Odemira
MUNICÍPIO



अगर आप किसी एक खास दिन को खुशी या उत्सव मनाना चाहते हैं, जो आपके लिए आध्यात्मिक या सामाजिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, तो कृपया इन बातों का ध्यान रखें।:

Se pretende celebrar uma data espiritualmente relevante para si ou algum outro tipo de festividade, SIGA ESTAS RECOMENDAÇÕES:

- किसी भी तरह की सभा और भीड़-भाड़ करने से बचें और लोगों के साथ संपर्कों को कम से कम रखें।;

Evite ajuntamentos de pessoas e reduza ao máximos os contactos;

- देश के अंदर (और बाहर) यात्राओं से बचें;

Evite viagens dentro (e fora) do país;

- केवल उन्हीं लोगों के साथ उत्सव और जश्न मनाएं जिनके साथ आप अपना घर सांझा करते हैं।;

Celebre apenas com as pessoas com quem partilha casa;

- उपलब्ध डिजिटल मीडिया का लाभ उठाएं, और ऑनलाइन खुशी मनाने के तरीके खोजें।;

Aproveite os meios digitais disponíveis e encontre formas de celebração online;

- जोखिम भरे व्यवहार से बचें और स्वास्थ्य विभाग की सफारिशों का पालन करें।;

Evite comportamentos de risco e siga todas as recomendações da DGS.*

** Direção-Geral da Saúde*


हम महामारी के दौर में रहते हैं, इसलिए कृपया ज़िम्मेदार बनें अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी।

Vivemos tempos de pandemia, seja responsável por si e pelos outros.

इस वर्ष
व्यक्तिगत उत्सव
का चयन करें

*ESTE ANO ESCOLHA A
CELEBRAÇÃO INDIVIDUAL*

Promovido por:



Com o apoio de:



Photo by Ravi Sharma on Unsplash

अगर आप किसी एक खास दिन को खुशी या उत्सव मनाना चाहते हैं, जो आपके लिए आध्यात्मिक या सामाजिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, तो कृपया इन बातों का ध्यान रखें।:

Se pretende celebrar uma data espiritualmente relevante para si ou algum outro tipo de festividade, SIGA ESTAS RECOMENDAÇÕES:

- किसी भी तरह की सभा और भीड़-भाड़ करने से बचें और लोगों के साथ संपर्कों को कम से कम रखें।;

Evite ajuntamentos de pessoas e reduza ao máximos os contactos;

- देश के अंदर (और बाहर) यात्राओं से बचें;

Evite viagens dentro (e fora) do país;

- केवल उन्हीं लोगों के साथ उत्सव और जश्न मनाएं जिनके साथ आप अपना घर सांझा करते हैं।;

Celebre apenas com as pessoas com quem partilha casa;

- उपलब्ध डिजिटल मीडिया का लाभ उठाएं, और ऑनलाइन खुशी मनाने के तरीके खोजें।;

Aproveite os meios digitais disponíveis e encontre formas de celebração online;

- जोखिम भरे व्यवहार से बचें और स्वास्थ्य विभाग की सफारिशों का पालन करें।;

Evite comportamentos de risco e siga todas as recomendações da DGS.*

** Direção-Geral da Saúde*

हम महामारी के दौर में रहते हैं, इसलिए कृपया ज़िम्मेदार बनने अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी।

Vivemos tempos de pandemia, seja responsável por si e pelos outros.

इस वर्ष व्यक्तिगत उत्सव का चयन करें

ESTE ANO ESCOLHA A
CELEBRAÇÃO INDIVIDUAL


Promovido por:



Unidade
de Saúde
Pública
Alentejo Litoral

Com o apoio de:

Odemira
MUNICÍPIO



यदि आप एक ऐसी तारीख का जश्न मनाना चाहते हैं जो आपके या किसी के लिए आध्यात्मिक रूप से प्रासंगिक है एक और प्रकार की उत्सवधर्मिता, इन तीन राशियों का अनुसरण करें:

Se pretende celebrar uma data espiritualmente relevante para si ou algum outro tipo de festividade, SIGA ESTAS RECOMENDAÇÕES:

- किसी भी तरह की सभा और भीड़-भाड़ करने से बचें और लोगों के साथ संपर्कों को कम से कम रखें।;

Evite ajuntamentos de pessoas e reduza ao máximos os contactos;

- देश के अंदर (और बाहर) यात्राओं से बचें;

Evite viagens dentro (e fora) do país;

- केवल उन्हीं लोगों के साथ उत्सव और जश्न मनाएं जिनके साथ आप अपना घर सांझा करते हैं।;

Celebre apenas com as pessoas com quem partilha casa;

- उपलब्ध डिजिटल मीडिया का लाभ उठाएं, और ऑनलाइन खुशी मनाने के तरीके खोजें।;

Aproveite os meios digitais disponíveis e encontre formas de celebração online;

- जोखिम भरे व्यवहार से बचें और स्वास्थ्य विभाग की सफारिशों का पालन करें।;

Evite comportamentos de risco e siga todas as recomendações da DGS.*

** Direção-Geral da Saúde*

हम महामारी के दौर में रहते हैं, इसलिए कृपया ज़िम्मेदार बनें अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी।

Vivemos tempos de pandemia, seja responsável por si e pelos outros.

इस वर्ष
व्यक्तिगत उत्सव
का चयन करें।

*ESTE ANO ESCOLHA A
CELEBRAÇÃO INDIVIDUAL*

Promovido por:



TAIPA



Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano



Unidade
de Saúde
Pública
Alentejo Litoral

Com o apoio de:



MUNICÍPIO

